



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 9, 2005/माघ 20, 1926

No. 128]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 9, 2005/MAGHA 20, 1926

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2005

का.आ. 180(अ).—केंद्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन जलभूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 465 (अ) तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 ए का 183.5 कि.मी. से 362.16 कि.मी. (गुजरात राज्य में बामनबोर से समारख्याली से गांधीधाम खण्ड) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा था।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग प्रखंड और स्थायी पुल के उपयोग के लिए फीस-लोक वित्तपोषित परियोजनाएं) नियम, 1997 के नियम 3, 5 और 11 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 ए के 306.00 कि.मी. से 362.16 कि.मी. तक के भूखंड के उपयोग के लिए इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभागीय तौर पर, सीधे या प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाने के आधार पर निजी ठेकेदार के माध्यम से केंद्रीय सरकार की ओर से यांत्रिक यानों पर इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस उद्गृहीत और संगृहीत की जाएगी। यह फीस इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख अथवा उक्त भूखंड को खोले जाने की तारीख जो भी बाद में पड़े से स्थायी आधार पर संगृहीत की जाएगी। फीस की दर राष्ट्रीय राजमार्ग (फीस की दर) नियम, 1997 के अनुसार संशोधित किए जाने के अधीन रहते हुए हैं।

**अनुसूची**

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 ए के 306.000 कि.मी. से 362.16 कि.मी. तक चार लेन वाले भूखंड के उपयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस की दर ।

क्रम सं.	यान की विशिष्टियाँ	एक दिन में एक ओर के चक्कर के लिए प्रति यान फीस की दर (रूपये)	एक दिन में बहुचक्करों के लिए यान के लिए फीस की दर (रूपये)
1.	2.	3.	4.
1.	कार या जीप या वैन	25	38
2.	हल्के वाणिज्यिक यान	45	68
3.	ट्रक या बस	95	143
4.	भारी संनिर्माण मशीनरी और अर्धमूविंग उपकरण	205	308

टिप्पण:-

1. जब उसी यांत्रिक यान को राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त भूखंड को एक दिन में एक से अधिक बार पार करना है तो उपयोक्ता को पहले चक्कर में द्वार पार करते समय अनुसूची में दी गई दरों पर 3 मौड़ी रकम का संदाय करने का विकल्प होगा अथवा यदि उसी यांत्रिक यान को संपूर्ण मास या उससे अधिक के लिए एक से अधिक बार उक्त भूखंड को निरंतर पार करना पड़ता है तो यान का स्वामी पूर्वोक्त अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट लागू तीस एकल दरों के समतुल्य प्रभारों का संदाय करके मासिक पास ले सकेगा ।

2. अनुसूची में उपर्युक्त विनिर्दिष्ट फीस से निम्नलिखित प्रकार के यान छूट प्राप्त होंगे, अर्थात् :-

(i) ऐसे यान -

(अ) जो "अति महत्वपूर्ण व्यक्ति" प्रतीक, वाले अथवा शासकीय रूप से निम्नलिखित से संबंधित हैं :-

- (क) भारत के राष्ट्रपति;
- (ख) भारत के उपराष्ट्रपति;
- (ग) राज्य के राज्यपाल अथवा संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल;
- (घ) भारत के राजकीय दौरे पर विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति;
- (ङ) "सी डी"/"सी सी" नंबर प्लेटों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक;
- (च) राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद के सभापति या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष या संघ अथवा राज्य के मंत्री अथवा लोक सभा या राज्य सभा या राज्य मंडलों के विरोधी दल के नेता जिनकी प्रास्थिति कैबिनेट मंत्री की हो, जब वह यान में बैठा हो; अथवा
- (छ) संसद सदस्य अथवा संबंधित राज्य में राज्य विधान सभा के सदस्य या राज्य विधान परिषद के सदस्य यदि वह, यथास्थिति संसद अथवा राज्य के संबंधित विधान मंडल, द्वारा किया गया जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करता है;

- (आ) परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र जैसे पुरस्कार जीतने वाला व्यक्ति, यदि ऐसा विजेता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्पर्क रूप से अधिप्रमाणित अपना फोटो पहचान प्रस्तुत करता है।
- (ii) रक्षा यान, पुलिस यान, अग्नि शमन यान, एम्बुलेंस, अन्त्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान ड्यूटी पर कार्यरत केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के यान।

3. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और उस प्राधिकारी का नाम, पता, टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, की जानी चाहिए, पथकर चौकी से 500 मी. पहले, पथकर चौकी से 100 मी. आगे और पथकर चौकी पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित किया जाएगा। संप्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार होगा कि चालकों के लिए संप्रदर्शन बोर्ड का पढ़ना सहज हो और इसे अंग्रेजी, हिंदी और उस क्षेत्र जिसमें उक्त भूखंड अवस्थित है की प्रादेशिक भाषा में स्पष्ट रूप से लिख कर अथवा मुद्रित करके बोर्डों पर संप्रदर्शित करना होगा।

4. फीस पथकर चौकी पर 309.00 कि.मी पर संग्रहीत की जाएगी।

[फा. सं. आर डब्ल्यू/एन एच-37011/19/2002-पी आई सी]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2005

**S.O. 180(E).**—Whereas, vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 465(E), dated 26<sup>th</sup> April, 2002, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government entrusted the stretches from km 183.5 to km 362.16 (Bamanbore to Samakhali to Gandhidham section in the State of Gujarat) of the National Highway No. 8A to the National Highways Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rules 3, 5 and 11 of the National Highways (Fees for the use of National Highways Section and permanent Bridge – Public Funded Projects) Rules, 1997, the Central Government hereby notifies that there shall be levied and collected by the National Highways Authority of India departmentally, through private contractor on the basis of competitive bidding on behalf of the Central Government, fee on mechanical vehicles for the use of the stretches from km 306.00 to km. 362.16 of the National Highway No. 8A in the State of Gujarat at the rates specified in the Schedule annexed hereto. The fee shall be collected in perpetuity with effect from the date of publication of this notification in

the Official Gazette or date of opening of the said stretch to traffic, whichever is later. The rate of fee are subject to revision as per the National Highways (Rate of Fee) Rules, 1997.

### SCHEDULE

Rate of fee to be recovered from the users of the four-laned stretch from km 306.00 to km 362.16 of the National Highway No. 8A.

Sl. No	Particulars of vehicle	Fee rate for vehicle for one way trip in a day (Rupees)	Fee rate for vehicle for multiple trip in a day (Rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Car or Jeep or Van	25	38
2	Light commercial vehicle (LCV)	45	68
3	Truck or Bus	95	143
4	Heavy construction machinery and earth moving equipment	205	308

Notes :-

- 1 When the same mechanical vehicle has to cross the said stretch of the National Highway more than once in a day, the user shall have the option to pay the fee of one and half times of the rates as specified in the Schedule given above or if the same mechanical vehicle has to cross the said stretch frequently for the entire month or even beyond that the owner of the vehicle may obtain a monthly pass on payment of charges equal to thirty times single rates applicable to it as specified in the aforesaid Schedule.
2. The following types of vehicles shall be exempted from the fees specified above in the Schedule, namely:-
  - (i) vehicles --
    - (A) having "VIP" symbols; or Officially belonging to -
      - (a) President of India;
      - (b) Vice President of India;
      - (c) Governor of a State or Lt. Governor of a Union Territory;
      - (d) a Foreign Dignitary on State visit to India;
      - (e) a Foreign Diplomat stationed in India using cars with "CD"/ "CC" number plates;

(f) Chairman of Rajya Sabha or Speaker of Lok Sabha or Chairman of a State Legislative Council or Speaker of a State Legislative Assembly or a Minister for the Union or State, or Leaders of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures, having the status of Cabinet Minister, if he is sitting in the vehicle; or

(g) a Member of Parliament or a Member of Legislative Assembly of a State or a Member of Legislative Council of a State, in the respective State, if he produces his identity card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State, as the case may be;

(B) belonging to winner of Gallantry awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the Competent Authority for such Award;

(ii) Defence vehicles, Police vehicles, Fire fighting vehicles, Ambulances, Funeral vans, vehicles of the Departments of Posts and Telegraphs and Central Government and State Government vehicles on duty.

3. The rates of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of the authority to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 meters ahead of the toll booths, 100 meters ahead of the toll booths and at the toll booths also, the height of the display boards and size of letters being such that it is easy for drivers to read the display boards and they shall be legibly written or printed in the English, Hindi and the regional language of the area in which the stretch is situated.

4. The fees shall be collected at the toll booth at km 309.00.

[F. No. RW/NH-37011/19/2002-PIC]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.